



बाढ़ का पानी आपको अस्वस्थ कर सकता है

- बाढ़ के पानी में मल, रसायन और कूड़ा हो सकता है जिससे गंभीर रोग हो सकता है और चोटें लग सकती हैं
- कभी भी बाढ़ के पानी में न तैरें
- बाढ़ के बाद साफ-सफाई करते समय अपना बचाव करें और मास्क, बूट और दस्ताने पहनें
- रोग से बचाव के लिए बाढ़ के पानी के संपर्क में आने के बाद साबुन और पानी से अपने हाथ धोएँ

यदि आपकी कोई स्वास्थ्य चिंताएँ हैं और आपको भाषा समर्थन की ज़रूरत है, तो TIS को 131 450 पर फोन करें और 1800 022 222 पर Health Direct के लिए निवेदन करें।

